



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2016/आषाढ़ 13, 1938

No. 275]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2016/ASADHA 13, 1938

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**अधिसूचना**

मुम्बई, 27 जून, 2016

सं. टीएएमपी/31/2016-पीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, इसके साथ संलग्न आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार, लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) पर प्रहस्तित तापीय कोयला के लिए तदर्थ आधार पर श्रम उपकर की शुरुआत करने के लिए पारादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण**मामला संख्या टीएएमपी/31/2016-पीपीटी****पारादीप पत्तन न्यास**

...

आवेदक**कोरम**

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून 2016 के इस 21वें दिन को पारित)

यह मामला लौह अयस्क प्रहस्तन संयंत्र (आईओएचपी) पर प्रहस्तित तापीय कोयला के लिए श्रम उपकर की शुरुआत करने के लिए पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है। पीपीटी ने अपने 24 मई 2016 के इस प्रस्ताव में आईओएचपी पर तापीय कोयले के प्रहस्तन के लिए ₹ 130/- प्रति मीट्रिक टन की दर का प्रस्ताव किया है।

2. इस प्रस्ताव पर संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ परामर्श किया गया है। प्रस्तावित दर के संबंध में कुछ जानकारी / स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

3. इसी बीच, पीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 8 जून 2016 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया है: -
- (i). दो संबंधित निर्यातकों अर्थात् एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड (एनटीईसीएल) और टीएएनजीईडीसीओ ने प्रस्तावित लेवी के लिए सहमति व्यक्त करते हुए, प्रस्तावित श्रम उपकर को और अधिक कम करने के लिए पीपीटी से अनुरोध किया था। इस अनुरोध के उत्तर में, पीपीटी ने ₹ 130/- प्रति मीट्रिक टन की दर को कम करके ₹ 120/- प्रति मीट्रिक टन करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है।
 - (ii). चूँकि, आईओएचपी पर तापीय कोयले के प्रहस्तन का कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है, इसलिए, अंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान करने के कार्य में समय लगने की स्थिति में, तदर्थ आधार पर ₹ 120/- प्रति मीट्रिक टन की दर का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
 - (iii). यह सूचित किया जाता है कि दर के संबंध में अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने पर, बीच की अवधि के दौरान, इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त राशि के संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- 4.1. जहां तक पीपीटी द्वारा किए गए अनुरोध का संबंध है, प्रशुल्क नीति, 2015 को प्रचालनात्मक बनाने के लिए जारी किए गए कार्यकारी दिशा-निर्देशों के खण्ड 5.7.1 से 5.7.5 की ओर ध्यान आकर्षित कराना उपयुक्त प्रतीत होता है।
- 4.2. कार्यकारी दिशा-निर्देशों के खण्ड 5.7.1 के अनुसार, जब कभी भी किसी पत्तन-विशेष अथवा किसी अन्य महापत्तन के दर मान (एसओआर) में किसी सेवा/कार्गो के लिए कोई विशिष्ट प्रशुल्क उपलब्ध नहीं होता है, तो पत्तन उक्त नए कार्गो / सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, कार्यकारी दिशानिर्देशों के खण्ड 5.7.3 और 5.7.4 के अनुसार, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के साथ-साथ ही, पत्तन दर के अंतिम रूप से अधिसूचित होने तक संबंधित उपयोक्ताओं के परामर्श से तदर्थ आधार पर प्रस्तावित दर वसूल कर सकता है।
- 5.1. तदनुसार, पीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव आईओएचपी के माध्यम से कोयले के प्रहस्तन के लिए दरों की वसूली के लिए है, जिसके लिए पीपीटी दर मानों में कोई प्रशुल्क उपलब्ध नहीं है।
- 5.2. जैसाकि कार्यकारी दिशा निर्देशों के खंड 5.7.3 में विनिर्दिष्ट है, प्रस्ताव के प्रस्तुत करने के साथ ही, पीपीटी ने इस आधार पर कि आईओएचपी पर तापीय कोयले के प्रहस्तन का कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है, तदर्थ आधार पर दरों की वसूली के लिए अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।
- 5.3. इस संबंध में, पीपीटी ने यह उल्लेख किया है कि ₹ 120/- प्रति मीट्रिक टन की तदर्थ दर उपयोक्ताओं द्वारा पीपीटी से किए गए अनुरोध पर आधारित है। पीपीटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से पता चलता है कि तदर्थ दर उपयोक्ताओं के साथ किए गए परामर्श के अनुसार है।
- 5.4. इसके अलावा, पीपीटी ने उल्लेख किया है कि दर के संबंध में अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने पर, बीच की अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त राशि के संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
- 6.1. पीपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर परामर्श किया गया है। इस संदर्भ में इस मामले पर संयुक्त सुनवाई का आयोजन अभी किया जाना है। इस प्रकार, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निपटान के लिए मामले के पूर्ण रूप से तैयार करने में कुछ और समय लग सकता है।
- 6.2. उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और इस बात पर विचार करते हुए कि पीपीटी ने आईओएचपी पर कोयले के प्रहस्तन का कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया है, यह प्राधिकरण बीओएसएन बैगनों के माध्यम से प्राप्त तथा पीपीटी द्वारा पत्तन पर आईओएचपी के जरिए ₹120/- प्रति मीट्रिक टन की दर, जोकि आईओएचपी पर सेवा के प्रारंभ होने की तारीख से लागू होगी, से प्रहस्तित तापीय कोयले पर श्रम उपकर की वसूली का तदर्थ अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान करने के लिए तत्पर है कि यदि इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित

दर ₹ 120/- प्रति मीट्रिक टन की तदर्थ दर से कम होती है तो अंतिम दर और तदर्थ दर के बीच के अंतर का वापसी भुगतान पीपीटी द्वारा संबंधित उपयोक्ताओं को किया जाएगा,

6.3. चूंकि पीपीटी ने यह सूचित किया है कि आईओएचपी पर तापीय कोयले का प्रहस्तन पहले ही प्रारंभ हो चुका है, इसलिए ₹ 120/- प्रति मीट्रिक टन की तदर्थ दर आईओएचपी पर सेवा के प्रारंभ होने की तारीख से लागू होगी।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./143/16 (157)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 27th June, 2016

No. TAMP/31/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for introduction of Labour Cess on Ad hoc basis, for the thermal coal handled at Iron Ore Handling Plant (IOHP) as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/31/2016-PPT

Paradip Port Trust

...
QUORUM

Applicant

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 21st day of June 2016)

This case relates to the proposal received from Paradip Port Trust (PPT) for introduction of Labour Cess for the thermal coal handled at Iron Ore Handling Plant (IOHP). The PPT in its proposal dated 24 May 2016 has proposed a rate of ₹130/- per MT for handling of thermal coal at IOHP.

2. The Proposal has been taken up on consultation with the concerned users/ user organisations. The proposal is under scrutiny for seeking some information / clarification with regard to the proposed rate.

3. In the meanwhile, the PPT vide its communication dated 8 June 2016 have made following submissions: -

- (i). The two concerned exporters, namely NTPC Tamilnadu Energy Company Ltd (NTECL) and TANGEDCO, while agreeing for the proposed levy, had requested PPT to further reduce the proposed labour cess. In response to the request, the PPT has agreed to reduce the rate from ₹130/- per MT to ₹120/- per MT.
- (ii). As handling of Thermal Coal at IOHP has already commenced, it is requested to approve the rate of ₹120 per MT on ad hoc basis, in case final approval will take some time.

- (iii). It is informed that on receipt of the final approval of the rate, the necessary adjustment will be made on the amount received under this head, during the intervening period.

4.1. With regard to the request made by PPT, it is relevant to draw reference to Clauses 5.7.1 to 5.7.5 of the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Policy, 2015.

4.2. As per Clause 5.7.1. of the Working Guidelines, whenever a specific tariff for a service / cargo is not available in the Scale of Rates (SOR) of the particular port or any other major port, then the port can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo / service. Further, as per Clause 5.7.3. and 5.7.4 of the Working Guidelines, with the submission of proposal, the port can simultaneously levy the proposed rate on an adhoc basis in consultation with the concerned users, till the rate is finally notified.

5.1. Accordingly, the proposal filed by the PPT is for levy of rates for handling of coal through IOHP, for which no tariff is available in the PPT Scale of Rates.

5.2. As stipulated in Clause 5.7.3. of the Working Guidelines, with the submission of the proposal, the PPT has sought approval for levy of rates on adhoc basis, on the ground that handling of thermal coal at IOHP has already commenced.

5.3. In this connection, PPT has stated that the adhoc rate of ₹120/- per MT is based to the request made by users to PPT. The documents furnished by PPT shows that the adhoc rate is in consultation with the users.

5.4. Further, the PPT has stated that on receipt of final approval of the rate, the necessary adjustment will be made on the amount received under this head, during the intervening period.

6.1. The proposal filed by PPT has been taken up on consultation. A joint hearing on the case in reference is yet to be held. Thus, it may take some more time for the case to mature for final disposal of this Authority.

6.2. In view of the above position and considering that PPT has already commenced handling of coal at IOHP, this Authority is inclined to grant adhoc approval to the levy of the labour cess on thermal coal received through BOXN wagons and handled via IOHP at the port, by PPT, at the rate of ₹120/- per MT, which will be effective from the date of commencement of service at IOHP, subject to the condition that if the final rate fixed by this Authority is lower than the adhoc rate of ₹120/- per MT, the difference between the final rate and the adhoc rate shall be refunded by the PPT to the concerned users.

6.3. Since the PPT has reported to have already commenced handling of thermal coal at IOHP, the adhoc rate of ₹120/- per MT shall come into effect from the date of commencement of service at IOHP.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Ety./143/16 (157)]